

भारतीय जनता पार्टी
(केंद्रीय कार्यालय)

11 अशोक रोड़, नई दिल्ली- 110001

दिनांक— 20 नवम्बर, 2014

**भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री अमित शाह के रामबन और बनिहाल की
चुनावी रैलियों में दिए गये भाषणों के मुख्य बिन्दु**

- भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने वृहस्पतिवार को जम्मू कश्मीर के रामबन और बनिहाल में दो विशाल जन सभाओं को संबोधित किया। श्री शाह ने इस अवसर पर जम्मू कश्मीर की जनता से राज्य में राष्ट्रवादियों की सरकार बनाने, जम्मू कश्मीर की जनता को दो परिवारों और भ्रष्टाचार से मुक्त कराने और संपूर्ण विकास के लिए राज्य का भविष्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के हाथों में सौंपने का आग्रह किया।
- रामबन के रामलीला मैदान में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि देश में 30 साल बाद स्पष्ट बहुमत वाली सरकार का बनी है। वर्ष 2014 में जम्मू कश्मीर भी एक बड़े बदलाव का साक्षी बनेगा। **'मिशन 44'** सिर्फ एक नारा नहीं है। मतदाताओं और जम्मू कश्मीर की जनता के आशीर्वाद से जल्द ही यह हकीकत बनेगा।
- नेशनल कान्फ्रेंस और पीडीपी के कुशासन की याद जनता को दिलाते हुए श्री शाह ने कहा कि दो परिवारों ने यहां 60 साल से अधिक समय तक राज किया है। क्या यहां के लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है? क्या यहां लोगों को पानी मिलता है? आज देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां चौबीस घंटे बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध है तो फिर जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? जम्मू कश्मीर के युवा आज रोजगार की तलाश में भटकने को मजबूर हैं। श्री शाह ने कहा कि इस स्थिति के लिए ये दोनों ही परिवार जिम्मेदार हैं।
- एनसी और पीडीपी के कार्यकाल में हुए घोटालों की ओर इशारा करते हुए श्री शाह ने कहा कि अगर इन दोनों पार्टियों के प्रथम परिवारों द्वारा किए गए घोटालों की जांच की जाए तो देश का सबसे बड़ा घोटाला सामने आएगा। भाजपा की सरकार बनने पर सभी घोटालों की जांच कराई जाएगी।

- श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार पूरे देश में सर्वाधिक अनुदान जम्मू कश्मीर को ही देती है। केंद्र सरकार इतनी बड़ी धनराशि भेजती है वह आखिर कहां गई ? इन दोनों परिवारों के नेताओं ने यह धनराशि हजम कर ली। जनता के विकास का यह पैसा इन दोनों परिवारों ने अपने घर और कोठी बनाने और विदेश की सैर पर खर्च किया।
- श्री शाह ने कहा कि आज जिन प्रदेशों में भी भाजपा की सरकार है वहां हर गांव में 24 घंटे बिजली, पानी और एंबुलेंस की सुविधा है। इसके अलावा पढ़ाई और रोजगार के अवसर हैं। यही वजह है कि अलग-अलग राज्यों की जनता विकास के लिए भाजपा को चुन रही है।
- श्री शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सोनियाजी हमारे पांच महीनों का हिसाब मांग रही हैं। पहले कांग्रेस को अपने 60 वर्षों का हिसाब देना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि हम देश की जनता को हिसाब देने को तैयार हैं। बीते पांच माह में मोदी सरकार ने कई बार पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की है। इससे आम लोगों को फायदा हुआ है। मोदी सरकार ने पांच महीने में ही महंगाई पर काबू पा लिया है।
- श्री शाह ने बीते पांच महीने में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रमों का ब्यौरा देते हुए कहा कि सरकार ने गरीबों के बैंक खाते खोलने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेक इन इंडिया कार्यक्रम और श्रमेव जयते जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का परचम लहराते हुए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम एनडीए सरकार ने किया है।
- श्री शाह ने प्रधानमंत्री की सफल विदेश यात्राओं का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्व में जब भारतीय प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाते थे तो कहीं उसकी चर्चा तक नहीं होती थी। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया सहित दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो हर जगह उनका शानदार स्वागत होता है।
- श्री शाह ने जनता से आगामी विधान सभा चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत से जिताने और जम्मू कश्मीर का भविष्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के हाथ में सौंपने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य की जनता को भरोसा दिलाया कि भाजपा की सरकार बनने पर कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख सहित सभी क्षेत्रों का संपूर्ण विकास किया जाएगा।
